



ओलंपिक गेम्स- 2036 की मेज़बानी हेतु भारत की महत्त्वाकांक्षा

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई में 141वें **अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र** के उद्घाटन समारोह के दौरान आदर्श रूप से वर्ष 2036 में **ओलंपिक खेलों** की मेज़बानी करने के भारत के इरादे की घोषणा की।

- **चीन, दक्षिण कोरिया और जापान** ही केवल ऐसे एशियाई देश हैं जिन्होंने ओलंपिक की मेज़बानी की है, **जापान ने वर्ष 1964 तथा वर्ष 2020 में दो बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है।**

ओलंपिक हेतु मेज़बान शहर के चयन की प्रक्रिया:


- **पारंपरिक प्रणाली:**
 - पहले मेज़बानी लेने के लिये शहरों को **अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)** को रुचि पत्र प्रस्तुत करना होता था। जिसमें एक **लंबी बहु-वर्षीय, बहु-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया** होती थी।
 - मेज़बानों का चयन **सात साल पूर्व ही** कर लिया जाता था।
 - यह प्रक्रिया प्रायः अत्यधिक **खर्च, कर्ज़, भ्रष्टाचार और घोटालों का कारण** बनती है।
- **नया दृष्टिकोण: ओलंपिक एजेंडा 2020:**
 - वर्ष 2013 में थॉमस बाख IOC के अध्यक्ष बने और उन्होंने ओलंपिक एजेंडा- 2020 पेश किया, जो ओलंपिक गतिविधियों के भवष्य का एक बलूपरि था।
 - वर्ष 2014 में IOC सत्र के दौरान एजेंडे को मंजूरी दी गई थी। एक प्रमुख पहलू **मेज़बान शहरों के चयन के लिये 'नया मानदंड' स्थापित करना** था, जिसे **आधिकारिक तौर पर वर्ष 2019 में स्वटिज़रलैंड के लॉज़ेन में** IOC सत्र के दौरान अपनाया गया था।
 - इसने अधिक लचीलेपन के साथ मेज़बानों के चयन के **सात-वर्षीय नियम को प्रतस्थापित कर दिया**।
 - "द गेम्स एडप्ट टू द रीज़न, द रीज़न डज़ नॉट एडप्ट टू द गेम्स" आदर्श वाक्य के साथ लचीलेपन, स्थिरता और लागत-प्रभावशीलता पर ज़ोर दिया गया।
 - इसमें दो चरण शामिल होते हैं: **नरंतर संवाद (Continuous Dialogue) एवं लक्षित संवाद (Targeted Dialogue)।**
 - नरंतर संवाद वशिष्ट समय सीमा के बिना लचीले मास्टर प्लान की अनुमति देता है।
 - लक्षित संवाद की अवधि 12 माह तक होती है, जिसमें वस्तुतः चर्चा, गारंटी और एक सलाहकार रिपोर्ट शामिल होती है।

नोट: वर्ष 2030 के बाद से शुरू होने वाले सभी ओलंपिक खेलों के संस्करणों को **IOC की जलवायु-सकारात्मक प्रतबिद्धता** का पालन करते हुए अपने बजट व्यय को सीमित करना होगा।

ओलंपिक से संबंधित महत्त्वपूर्ण पहलू:

- **परिचय:**
 - ओलंपिक एक **अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है जो प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किया जाता है।**
 - ओलंपिक का लक्ष्य खेल के माध्यम से मनुष्य का विकास करना और विश्व शांति में योगदान देना है।
 - ओलंपिक में शामिल खेल: ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन खेल और युवा ओलंपिक खेल।
- **इतिहास और उत्पत्ति:**
 - ओलंपिक की शुरुआत लगभग **3,000 वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रीस के पेलोपोनिस क्षेत्र में हुई थी।**
 - हालाँकि सटीक आरंभ तिथि की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, आमतौर पर ऐतिहासिक अभिलेखों में **इसका वर्ष 776 ईसा पूर्व उल्लेखित है।**
 - **पियरे डी. क्यूबर्टिन** की योजना के आधार पर पहला आधुनिक ओलंपिक वर्ष **1896 में एथेंस, ग्रीस** में आयोजित किया गया था।
- **ओलंपिक रगिस:**

- ओलंपिक प्रतीक में एक सफेद पृष्ठभूमि पर वभिन्न रंगों (नीला, पीला, काला, हरा और लाल) के पाँच इंटरलॉकिंग रिंग्स होते हैं।
 - ये रिंग्स विश्व के पाँच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और खेलों के माध्यम से देशों की एकता एवं वविधिता का प्रतीक हैं।



■ आगामी कार्यक्रम:

- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024: पेरिस, फ्रांस
- शीतकालीन ओलंपिक 2026: मलान-कोर्टिना डी'अम्पेज़ो, इटली
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028: लॉस एंजलिस, USA
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032: ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया

भारत द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन:

- एशियाई खेल: वर्ष 1951 और वर्ष 1982
- राष्ट्रमंडल खेल: वर्ष 2010
- दक्षिण एशियाई खेल: वर्ष 1987, वर्ष 1995 और वर्ष 2016